



Indian Institute of
Tourism and Travel
Management



Ministry of Tourism
Government of India

Report
of Online
Poetry

Competition

“Ek Bharat Shreshtha Bharat” organized by **Indian Institute of Tourism and Travel Management**

Ministry of Tourism, Government of India, has entrusted Indian Institute of Tourism and Travel Management to conduct online event/programs/competition under “*Ek Bharat Shreshtha Bharat*”. In the series IITTM has organized “**Online National Poetry and Narration competition**”. The registration was opened for all across country and some 45 entries received from all over the country where participants has sent a copy of poetry written by them along with a video of narration of poetry.





The judgment was based on the theme of the poetry, use of language, originality of poetry and the art of narration. The winner and runner up of the poetry competition are:

Winner- Shruti Sharma

Runner up – Lav Kumar Gupta and Harishta Ghanghoriya

#Ek Bharat Shreshtha Bharat

Jury and IITM faculty checking the received Poetry and Narration Video



#Ek Bharat Shreshtha Bharat

"एक भारत श्रेष्ठ भारत"

एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावधारणा को प्राप्त करने दिये जाएंगे।
सरदार पटेल जी के इस सपने को प्राणोप्राण से निभाएंगे।
ये वादा है मेरा मेरे देश से इसे हम जन-जन से जुड़वाएंगे।
देश के विभिन्न प्रांतों के संबंध सुधारकर एकता को दृढ़ बनाएंगे।
शांति, सुरक्षा, सद्भाव, मित्रता जैसे चिर मूल्यों को स्थापित कराएंगे।
चाहे किसी भी हो स्थिति न हम विचलित होंगे न घबराएंगे।
पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक,
फैले राज्य रूपी मोतियों को एक सूत्र में पिरोएंगे।
चाहे कितना भी हम अपने तिरंगे को नई लहर से लहराएंगे।
देश को एक करने का अलख हम जन-जन में जगाएंगे।
भारत की उन्नति के शिखर पर पहुँचाकर पुनः स्वर्ण चिरैया बनाएंगे।
तभी तो एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना हम साकार कर पाएंगे ॥

एक भारत श्रेष्ठ भारत

"एक भारत, श्रेष्ठ भारत, हम इसे बनाएंगे
चली मिलजुल कर हम सब इसे सजाएंगे ॥"

भारत एक है तो क्यों हम अनेक हैं
हरा परिधान है तुम्हारा, तो क्यों विविध हमारे श्रेष्ठ हैं...
पंक्षियों की मधुर आवाज से सुननी,
कितना सुंदर ये परिवेश है।
सदा प्यार का संदेश है देनी,
तो क्यों हमारे मन में ये श्रेष्ठ हैं...
दया प्रेम करुणा की धरती,
ऐसा हमारा देश है ॥
खाना पानी सब एक जैसा है,
फिर तफ़रत कैसे उम-पूजे की होने में
सदिया गुजर गई यह सुभान में
वया खरबों है हुआ हनु में
अगर मिलकर है सब साथ रहे तो,
वया बकसा है जीने में ॥

#Ek Bharat Shreshtha Bharat

"एक है भारत, श्रेष्ठ है भारत"

(Saathi)

Date
हम हैं बेस्ट भारत के वासी ।
अगर है ये एक तभी होगा श्रेष्ठ ॥

प्राप्त भिन्न, भाषा भिन्न, भिन्न खानपान है ।
संस्कृति भिन्न, भिन्न धर्म, पर यही हमारी शान है ।
हमारी एकता ही इसकी आन और जान है ॥

न कोई हिन्दू, न कोई मुस्लिम, न सिख-ईसाई है ।
सबसे पहले भारतवासी, सब आपस में भाई है ।
लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात है
सब संस्कृति भारत की संस्कृति, सब एक समान परिवार है

विविध रंग हैं, विविध वेश हैं, सबकी यही पहचान है ।
कश्मीरी हो या जाट मराठा, सब भारत की संतान है ।

चारों धाम सब शीश नवाते, ताजमहल अभिमान बताते
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ; जन-गण-मन अधिनायक ग
क्रीक से लेकर मैकमोहन तक, भारत है एक, सबमें श्रेष्ठ
मनुष्य सभ्यता सबसे ज्येष्ठ, नहीं कोई है इससे श्रेष्ठ

भले राज्यों में कटे हुए, विविध बोलियों में बूँटे हुए
पर धुल-मिलकर एक रंग ध्वजा बनाते,
विश्व पटल पर उसे लहराते ॥

शंङकन देख ठहर है जाता, सबका मन है रुह ये
नक है भारत एक है भारत, श्रेष्ठतम से भी श्रेष्ठ है ॥

Shot on realme C2

#Ek Bharat Shreshtha Bharat